

डॉ. एम् के के आर्य मॉडल स्कूल
आवधिक परीक्षा मई (2018) मोक टेस्ट

कक्षा - तीसरी

विषय - हिंदी

निर्धारित समय -1 घंटा

पूर्णांक- /25

नाम-

रोल न-

प्रश्न 1. नीचे दिए गये अपठित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर दीजिए । (5)

एक गाँव में एक लकड़हारा रहता था । वह बहुत ही गरीब था । वह एक झोंपड़ी में रहता था । वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेच कर अपनी जीविका चलाता था । उसकी झोंपड़ी के सामने एक पीपल का पेड़ था । उसपर एक बंदर रहता था । लकड़हारा और बन्दर की पक्की मित्रता थी ।

क. लकड़हारा कहाँ रहता था ?

ख. झोंपड़ी के सामने किसका पेड़ था ?

ग. लकड़हारा अपनी जीविका कैसे चलाता था?

घ. वाक्य बनाइए – गरीब , पीपल

प्रश्न 2. प्रश्नों के उत्तर दीजिए । (5)

क. 'दादा जी'के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने क्या देखा ?

ख. कवि किस मार्ग पर चलना चाहता था?

ग. सोहनलाल ने अपने मित्र की तराजू क्यों नहीं लौटाई ?

घ. कवि ईश्वर से क्या माँग रहा था ?

ङ. धनीराम के मित्र का क्या नाम था ?

प्रश्न 3. शब्दों के अर्थ लिखिए । (2)

कारोबार , उत्साह , चैन , मजाक

प्रश्न 4. अंकों को शब्दों में लिखिए । (2)

13 , 15, 17, 19

प्रश्न 5. क्रिया शब्द के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए ।

क. मीनू है । (खाना)

ख. बच्चे है । (खेलना)

ग. मैना है । (उड़ना)

घ. तुम पानी हो । (पीना)

प्रश्न 6. दो -दो पर्यायवाची लिखिए ।

(2)

पिता , समीप

प्रश्न 7. दो -दो नाम लिखिए । (2)

स्थानों के नाम -

वस्तुओं के नाम -

प्रश्न 8. अनुच्छेद 'मेरा प्रिय अध्यापक, या 'मेरा मित्र' पर आठ वाक्य लिखिए ।

(5)